



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2012/पौष 23, 1933

No. 12]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2012/PAUSA 23, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2012

सं. 2/2012-सीमा-शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 12(अ).—अभिहित प्राधिकारी ने, चीन जनवादी गणराज्य, में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यातित सिल्क फीब्रेक 20-100 ग्राम प्रति मीटर जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम भी कहा गया है) की पहली अनुसूची के शीर्ष 5007 के अंतर्गत आते हैं, के आयात के मामले में अधिसूचना सं० 15/24/2010-डीजीएडी, तारीख 6 दिसम्बर, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में तारीख 6 दिसम्बर, 2010, के द्वारा प्रकाशित की गई थी के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 121/2006-सीमाशुल्क, तारीख 26 दिसम्बर, 2006, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (1) में सा०का०नि०-769 (अ) तारीख 26 दिसम्बर, 2006 तथा जिसे अधिसूचना सं० 37/2011-सीमाशुल्क, तारीख 21 अप्रैल, 2011, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा०का०नि० 336 (अ) तारीख 21 अप्रैल, 2011 के द्वारा प्रकाशित के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाया गया था, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (5) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत प्रतिपाटन-शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरम्भ की थी और अधिसूचना सं० 15/24/2010-डीजीएडी, तारीख 5 दिसम्बर, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में तारीख 5 दिसम्बर, 2011, के द्वारा प्रकाशित की गई थी द्वारा अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) एवं (5) के साथ पठित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, अधोलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देश में उदगमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित भारत में आयात किए गए, ऐसे मालों पर जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की

तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातको द्वारा किया जाए, तो उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेसी और उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त, उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में इंगित संदर्भ राशि तथा अवतरण मूल्य के अंतर के बराबर समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

सारणी

क्रम सं०	शीर्ष	माल का विवरण	विनिर्देशन	उद्गम देश	निर्यातक	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	करेसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5007	सिल्क फैब्रिक	निम्नलिखित ग्राम प्रति मीटर की भार रेंज में क्रम	चीन जन गण	चीन जन गण	कोई भी	कोई भी	निम्नानुसार	मीटर	अम डॉ
			20से अधिक और 25 तक जिसमें 25 भी शामिल है					2.26	वही-	वही-
			25से अधिक और 30 तक जिसमें 30 भी शामिल है					2.54	वही-	वही-
			30से अधिक और 35 तक जिसमें 35 भी शामिल है					2.83	वही-	वही-
			35 से अधिक और 40 तक जिसमें 40 भी शामिल है					3.12	वही-	वही-
			40 से अधिक और 45 तक जिसमें 45 भी शामिल है					3.40	वही-	वही-
			45 से अधिक और 50 तक जिसमें 50 भी शामिल है					3.69	वही-	वही-
			50 से अधिक और 55 तक जिसमें 55 भी शामिल है					3.98	वही-	वही-
			55 से अधिक और 60 तक जिसमें 60 भी शामिल है					4.26	वही-	वही-
			60 से अधिक और 65 तक जिसमें 65 भी शामिल है					4.55	वही-	वही-
			65 से अधिक और 70 तक जिसमें 70 भी शामिल है					4.84	वही-	वही-
			70 से अधिक और 75 तक जिसमें 75 भी शामिल है					5.12	वही-	वही-
			75 से अधिक और 80 तक जिसमें 80 भी शामिल है					5.41	वही-	वही-
			80 से अधिक और 85 तक जिसमें 85 भी शामिल है					5.70	वही-	वही-
			85 से अधिक और 90 तक जिसमें 90 भी शामिल है					5.98	वही-	वही-
			90 से अधिक और 95 तक जिसमें 95 भी शामिल है					6.27	वही-	वही-
			95 से अधिक और 100 तक जिसमें 100 भी शामिल है					6.56	वही-	वही-
2	5007	सिल्क फैब्रिक	निम्नलिखित ग्राम प्रति मीटर की भार रेंज में जार्जेट/ सिफॉन	चीन जन गण	चीन जन गण	कोई भी	कोई भी	निम्नानुसार	मीटर	अम डॉ.
			20से अधिक और 25 तक जिसमें 25 भी शामिल है					1.82	वही-	वही-
			25से अधिक और 30 तक जिसमें 30 भी शामिल है					2.08	वही-	वही-
			30 से अधिक और 35 तक जिसमें 35 भी शामिल है					2.34	वही-	वही-
			35 से अधिक और 40 तक जिसमें 40 भी शामिल है					2.60	वही-	वही-
			40 से अधिक और 45 तक जिसमें 45 भी शामिल है					2.86	वही-	वही-
			45 से अधिक और 50 तक जिसमें 50 भी शामिल है					3.12	वही-	वही-
			50 से अधिक और 55 तक जिसमें 55 भी शामिल है					3.38	वही-	वही-
			55 से अधिक और 60 तक जिसमें 60 भी शामिल है					3.63	वही-	वही-
			60 से अधिक और 65 तक जिसमें 65 भी शामिल है					3.89	वही-	वही-
			65 से अधिक और 70 तक जिसमें 70 भी शामिल है					4.15	वही-	वही-
			70 से अधिक और 75 तक जिसमें 75 भी शामिल है					4.41	वही-	वही-
			75 से अधिक और 80 तक जिसमें 80 भी शामिल है					4.67	वही-	वही-
			80 से अधिक और 85 तक जिसमें 85 भी शामिल है					4.93	वही-	वही-
			85 से अधिक और 90 तक जिसमें 90 भी शामिल है					5.19	वही-	वही-
			90 से अधिक और 95 तक जिसमें 95 भी शामिल है					5.45	वही-	वही-
			95 से अधिक और 100 तक जिसमें 100 भी शामिल है					5.71	वही-	वही-

3	5007	सिल्क फैब्रिक	निम्नलिखित ग्राम प्रति मीटर की भार रेंज में हेबुटाई	चीन जन.गण.	चीन जन गण	काई भी	कोई भी	निम्नानुसार	मीटर	अम डा
			20से अधिक और 25 तक जिसमें 25 भी शामिल है					2.16	वही	वही
			25से अधिक और 30तक जिसमें 30भी शामिल है					2.43	वही	वही
			30से अधिक और 35 तक जिसमें 35 भी शामिल है					2.69	वही	वही
			35 से अधिक और 40 तक जिसमें 40 भी शामिल है					2.96	वही	वही
			40से अधिक और 45 तक जिसमें 45 भी शामिल है					3.23	वही	वही
			45से अधिक और 50 तक जिसमें 50 भी शामिल है					3.50	वही	वही
			50से अधिक और 55 तक जिसमें 55 भी शामिल है					3.76	वही	वही
			55 से अधिक और 60 तक जिसमें 60भी शामिल है					4.03	वही	वही
			60से अधिक और 65 तक जिसमें 65 भी शामिल है					4.30	वही	वही
			65 से अधिक और 70 तक जिसमें 70 भी शामिल है					4.57	वही	वही
			70से अधिक और 75 तक जिसमें 75 भी शामिल है					4.83	वही	वही
			75 से अधिक और 80 तक जिसमें 80 भी शामिल है					5.10	वही	वही
			80से अधिक और 85 तक जिसमें 85 भी शामिल है					5.37	वही	वही
			85 से अधिक और 90 तक जिसमें 90 भी शामिल है					5.63	वही	वही
			90से अधिक और 95 तक जिसमें 95 भी शामिल है					5.90	वही	वही
			95 से अधिक और 100 तक जिसमें 100 भी शामिल है					6.17	वही	वही
4	5007	सिल्क फैब्रिक	निम्नलिखित ग्राम प्रति मीटर की भार रेंज में अन्य	चीन जन.गण.	चीन जन गण	काई भी	कोई भी	निम्नानुसार	मीटर	अम डा
			20से अधिक और 25 तक जिसमें 25 भी शामिल है					2.56	वही	वही
			25से अधिक और 30तक जिसमें 30भी शामिल है					2.90	वही	वही
			30से अधिक और 35 तक जिसमें 35 भी शामिल है					3.24	वही	वही
			35 से अधिक और 40 तक जिसमें 40 भी शामिल है					3.57	वही	वही
			40से अधिक और 45 तक जिसमें 45 भी शामिल है					3.91	वही	वही
			45से अधिक और 50 तक जिसमें 50 भी शामिल है					4.23	वही	वही
			50से अधिक और 55 तक जिसमें 55 भी शामिल है					4.56	वही	वही
			55 से अधिक और 60 तक जिसमें 60भी शामिल है					4.90	वही	वही
			60से अधिक और 65 तक जिसमें 65 भी शामिल है					5.23	वही	वही
			65 से अधिक और 70 तक जिसमें 70 भी शामिल है					5.57	वही	वही
			70से अधिक और 75 तक जिसमें 75 भी शामिल है					5.91	वही	वही
			75 से अधिक और 80 तक जिसमें 80 भी शामिल है					6.24	वही	वही
			80से अधिक और 85 तक जिसमें 85 भी शामिल है					6.58	वही	वही
			85 से अधिक और 90 तक जिसमें 90 भी शामिल है					6.92	वही	वही
			90से अधिक और 95 तक जिसमें 95 भी शामिल है					7.25	वही	वही
			95 से अधिक और 100 तक जिसमें 100 भी शामिल है					7.59	वही	वही
5	5007	सिल्क फैब्रिक	निम्नलिखित ग्राम प्रति मीटर की भार रेंज में क्रेप	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. स इतर अन्य कोई देश	काई भी	कोई भी	निम्नानुसार	मीटर	अम डा
			20से अधिक और 25 तक जिसमें 25 भी शामिल है					2.26	वही	वही
			25से अधिक और 30तक जिसमें 30भी शामिल है					2.51	-वही-	-वही-
			30से अधिक और 35 तक जिसमें 35 भी शामिल है					2.83	-वही-	-वही-
			35 से अधिक और 40 तक जिसमें 40 भी शामिल है					3.12	वही	वही
			40से अधिक और 45 तक जिसमें 45 भी शामिल है					3.40	वही	वही
			45से अधिक और 50 तक जिसमें 50 भी शामिल है					3.69	वही	वही
			50से अधिक और 55 तक जिसमें 55 भी शामिल है					3.98	वही	वही
			55 से अधिक और 60 तक जिसमें 60भी शामिल है					4.26	वही	वही
			60से अधिक और 65 तक जिसमें 65 भी शामिल है					4.55	वही	वही

			85 से अधिक और 70 तक जिसमें 70 भी शामिल है					4.84	-वही-	-वही-
			70 से अधिक और 75 तक जिसमें 75 भी शामिल है					5.12	-वही-	-वही-
			75 से अधिक और 80 तक जिसमें 80 भी शामिल है					5.41	-वही-	-वही-
			80 से अधिक और 85 तक जिसमें 85 भी शामिल है					5.70	-वही-	-वही-
			85 से अधिक और 90 तक जिसमें 90 भी शामिल है					5.98	-वही-	-वही-
			90 से अधिक और 95 तक जिसमें 95 भी शामिल है					6.27	-वही-	-वही-
			95 से अधिक और 100 तक जिसमें 100 भी शामिल है					6.56	-वही-	-वही-
6	5007	सिल्क फैब्रिक	निम्नलिखित ग्राम प्रति मीटर की मार रेज में जार्जेट/सिफॉन	चीन जन.गण.	चीन जन गण से इतर अन्य कोई देश	कोई भी	कोई भी	निम्नानुसार	मीटर	अग.डॉ.
			20 से अधिक और 25 तक जिसमें 25 भी शामिल है					2.08	-वही-	-वही-
			25 से अधिक और 30 तक जिसमें 30 भी शामिल है					2.34	-वही-	-वही-
			30 से अधिक और 35 तक जिसमें 35 भी शामिल है					2.60	-वही-	-वही-
			35 से अधिक और 40 तक जिसमें 40 भी शामिल है					2.86	-वही-	-वही-
			40 से अधिक और 45 तक जिसमें 45 भी शामिल है					3.12	-वही-	-वही-
			45 से अधिक और 50 तक जिसमें 50 भी शामिल है					3.38	-वही-	वही
			50 से अधिक और 55 तक जिसमें 55 भी शामिल है					3.63	-वही-	-वही-
			55 से अधिक और 60 तक जिसमें 60 भी शामिल है					3.89	-वही-	वही-
			60 से अधिक और 65 तक जिसमें 65 भी शामिल है					4.15	-वही-	-वही-
			65 से अधिक और 70 तक जिसमें 70 भी शामिल है					4.41	-वही-	-वही-
			70 से अधिक और 75 तक जिसमें 75 भी शामिल है					4.67	-वही-	-वही-
			75 से अधिक और 80 तक जिसमें 80 भी शामिल है					4.93	-वही-	-वही-
			80 से अधिक और 85 तक जिसमें 85 भी शामिल है					5.19	-वही-	-वही-
			85 से अधिक और 90 तक जिसमें 90 भी शामिल है					5.45	-वही-	-वही-
			90 से अधिक और 95 तक जिसमें 95 भी शामिल है					5.71	-वही-	-वही-
			95 से अधिक और 100 तक जिसमें 100 भी शामिल है					5.97	वही	वही
7	5007	सिल्क फैब्रिक	निम्नलिखित ग्राम प्रति मीटर की मार रेज में हेबुटाई	चीन जन गण	चीन जन गण से इतर अन्य कोई देश	कोई भी	कोई भी	निम्नानुसार	मीटर	अग.डॉ.
			20 से अधिक और 25 तक जिसमें 25 भी शामिल है					2.16	-वही-	वही
			25 से अधिक और 30 तक जिसमें 30 भी शामिल है					2.43	-वही-	वही-
			30 से अधिक और 35 तक जिसमें 35 भी शामिल है					2.69	-वही-	वही-
			35 से अधिक और 40 तक जिसमें 40 भी शामिल है					2.96	-वही-	-वही-
			40 से अधिक और 45 तक जिसमें 45 भी शामिल है					3.23	-वही-	वही
			45 से अधिक और 50 तक जिसमें 50 भी शामिल है					3.50	-वही-	वही
			50 से अधिक और 55 तक जिसमें 55 भी शामिल है					3.76	-वही-	वही
			55 से अधिक और 60 तक जिसमें 60 भी शामिल है					4.03	-वही-	वही
			60 से अधिक और 65 तक जिसमें 65 भी शामिल है					4.30	-वही-	वही-
			65 से अधिक और 70 तक जिसमें 70 भी शामिल है					4.57	-वही-	वही
			70 से अधिक और 75 तक जिसमें 75 भी शामिल है					4.83	-वही-	वही-
			75 से अधिक और 80 तक जिसमें 80 भी शामिल है					5.10	-वही-	-वही-
			80 से अधिक और 85 तक जिसमें 85 भी शामिल है					5.37	-वही-	वही-

			85 से अधिक और 90 तक जिसमें 90 भी शामिल है					5.63	-वही-	-वही-
			90से अधिक और 95 तक जिसमें 95 भी शामिल है					5.90	-वही-	-वही-
			95 से अधिक और 100 तक जिसमें 100 भी शामिल है					6.17	-वही-	-वही-
8	5007	सिल्क फैब्रिक	निम्नलिखित ग्राम प्रति मीटर की भार रेज में अन्य	चीन जन. गण.	चीन जन गण से इतर अन्य कोई देश	कोई भी	कोई भी	निम्नानुसार	मीटर	अम डॉ
			20से अधिक और 25 तक जिसमें 25 भी शामिल है					2.56	-वही-	-वही-
			25से अधिक और 30तक जिसमें 30भी शामिल है					2.90	-वही-	-वही-
			30से अधिक और 35 तक जिसमें 35 भी शामिल है					3.24	-वही-	-वही-
			35 से अधिक और 40 तक जिसमें 40 भी शामिल है					3.57	-वही-	-वही-
			40से अधिक और 45 तक जिसमें 45 भी शामिल है					3.91	-वही-	-वही-
			45से अधिक और 50 तक जिसमें 50 भी शामिल है					4.23	-वही-	-वही-
			50से अधिक और 55 तक जिसमें 55 भी शामिल है					4.56	-वही-	-वही-
			55 से अधिक और 60 तक जिसमें 60भी शामिल है					4.90	-वही-	-वही-
			60से अधिक और 65 तक जिसमें 65 भी शामिल है					5.23	-वही-	-वही-
			65 से अधिक और 70 तक जिसमें 70 भी शामिल है					5.57	-वही-	-वही-
			70से अधिक और 75 तक जिसमें 75 भी शामिल है					5.91	-वही-	-वही-
			75 से अधिक और 80 तक जिसमें 80 भी शामिल है					6.24	-वही-	वही
			80से अधिक और 85 तक जिसमें 85 भी शामिल है					6.58	वही	वही
			85 से अधिक और 90 तक जिसमें 90 भी शामिल है					6.92	-वही-	-वही-
			90से अधिक और 95 तक जिसमें 95 भी शामिल है					7.25	-वही-	-वही-
			95 से अधिक और 100 तक जिसमें 100 भी शामिल है					7.59	-वही-	-वही-
9	5007	सिल्क फैब्रिक	निम्नलिखित ग्राम प्रति मीटर की भार रेज में कप	चीन जन गण.	चीन जन गण से इतर अन्य कोई देश	कोई भी	कोई भी	निम्नानुसार	मीटर	अम डॉ
			20से अधिक और 25 तक जिसमें 25 भी शामिल है					2.26	-वही-	-वही-
			25से अधिक और 30तक जिसमें 30भी शामिल है					2.54	-वही-	-वही-
			30से अधिक और 35 तक जिसमें 35 भी शामिल है					2.83	-वही-	-वही-
			35 से अधिक और 40 तक जिसमें 40 भी शामिल है					3.12	-वही-	वही
			40से अधिक और 45 तक जिसमें 45 भी शामिल है					3.40	-वही-	-वही-
			45से अधिक और 50 तक जिसमें 50 भी शामिल है					3.69	-वही-	वही
			50से अधिक और 55 तक जिसमें 55 भी शामिल है					3.98	-वही-	वही
			55 से अधिक और 60 तक जिसमें 60भी शामिल है					4.26	-वही-	वही
			60से अधिक और 65 तक जिसमें 65 भी शामिल है					4.55	वही	वही
			65 से अधिक और 70 तक जिसमें 70 भी शामिल है					4.84	-वही-	-वही-
			70से अधिक और 75 तक जिसमें 75 भी शामिल है					5.12	-वही-	वही
			75 से अधिक और 80 तक जिसमें 80 भी शामिल है					5.41	वही	-वही-
			80से अधिक और 85 तक जिसमें 85 भी शामिल है					5.70	-वही-	वही
			85 से अधिक और 90 तक जिसमें 90 भी शामिल है					5.98	वही	वही
			90से अधिक और 95 तक जिसमें 95 भी शामिल है					6.27	वही	वही
			95 से अधिक और 100 तक जिसमें 100 भी शामिल है					6.56	-वही-	वही

10	5007	सिल्क फैब्रिक	निम्नलिखित ग्राम प्रति मीटर की भार रेज में जार्जेट/सिफॉन	चीन जन.गण.	चीन जन गण से इतर अन्य कोई देश	कोई भी	कोई भी	निम्नानुसार	मीटर	अम.डॉ.
			20से अधिक और 25 तक जिसमें 25 मी शामिल है					2.08	-वही-	-वही-
			25से अधिक और 30तक जिसमें 30मी शामिल है					2.34	-वही-	-वही-
			30से अधिक और 35 तक जिसमें 35 मी शामिल है					2.60	-वही-	-वही-
			35 से अधिक और 40 तक जिसमें 40 मी शामिल है					2.86	-वही-	-वही-
			40से अधिक और 45 तक जिसमें 45 मी शामिल है					3.12	-वही-	-वही-
			45से अधिक और 50 तक जिसमें 50 मी शामिल है					3.38	-वही-	-वही-
			50से अधिक और 55 तक जिसमें 55 मी शामिल है					3.63	-वही-	-वही-
			55 से अधिक और 60 तक जिसमें 60मी शामिल है					3.89	-वही-	-वही-
			60से अधिक और 65 तक जिसमें 65 मी शामिल है					4.15	-वही-	-वही-
			65 से अधिक और 70 तक जिसमें 70 मी शामिल है					4.41	-वही-	-वही-
			70से अधिक और 75 तक जिसमें 75 मी शामिल है					4.67	-वही-	-वही-
			75 से अधिक और 80 तक जिसमें 80 मी शामिल है					4.93	-वही-	-वही-
			80से अधिक और 85 तक जिसमें 85 मी शामिल है					5.19	-वही-	-वही-
			85 से अधिक और 90 तक जिसमें 90 मी शामिल है					5.45	-वही-	-वही-
			90से अधिक और 95 तक जिसमें 95 मी शामिल है					5.71	-वही-	-वही-
			95 से अधिक और 100 तक जिसमें 100 मी शामिल है					5.97	-वही-	-वही-
11	5007	सिल्क फैब्रिक	निम्नलिखित ग्राम प्रति मीटर की भार रेज में हेबुटाई	चीन जन गण.	चीन जन.गण. से इतर अन्य कोई देश	कोई भी	कोई भी	निम्नानुसार	मीटर	अम.डॉ.
			20से अधिक और 25 तक जिसमें 25 मी शामिल है					2.16	-वही-	-वही-
			25से अधिक और 30तक जिसमें 30मी शामिल है					2.43	-वही-	-वही-
			30से अधिक और 35 तक जिसमें 35 मी शामिल है					2.69	-वही-	-वही-
			35 से अधिक और 40 तक जिसमें 40 मी शामिल है					2.96	-वही-	-वही-
			40से अधिक और 45 तक जिसमें 45 मी शामिल है					3.23	-वही-	-वही-
			45से अधिक और 50 तक जिसमें 50 मी शामिल है					3.50	-वही-	-वही-
			50से अधिक और 55 तक जिसमें 55 मी शामिल है					3.76	-वही-	-वही-
			55 से अधिक और 60 तक जिसमें 60मी शामिल है					4.03	-वही-	-वही-
			60से अधिक और 65 तक जिसमें 65 मी शामिल है					4.30	-वही-	-वही-
			65 से अधिक और 70 तक जिसमें 70 मी शामिल है					4.57	-वही-	-वही-
			70से अधिक और 75 तक जिसमें 75 मी शामिल है					4.83	-वही-	-वही-
			75 से अधिक और 80 तक जिसमें 80 मी शामिल है					5.10	-वही-	-वही-
			80से अधिक और 85 तक जिसमें 85 मी शामिल है					5.37	-वही-	-वही-
			85 से अधिक और 90 तक जिसमें 90 मी शामिल है					5.63	-वही-	-वही-
			90से अधिक और 95 तक जिसमें 95 मी शामिल है					5.90	-वही-	-वही-
			95 से अधिक और 100 तक जिसमें 100 मी शामिल है					6.17	-वही-	-वही-

12	5007	सिल्क फेब्रिक	निम्नलिखित ग्राम प्रति मीटर की भार रेंज में अन्य	चीन जन गण	चीन जन गण से इतर अन्य कोई देश	कोई भी	काई भी	निम्नानुसार	मीटर	अम.डॉ.
			20 से अधिक और 25 तक जिसमें 25 भी शामिल है					2.56	-वही-	वही-
			25 से अधिक और 30 तक जिसमें 30 भी शामिल है					2.90	-वही-	वही-
			30 से अधिक और 35 तक जिसमें 35 भी शामिल है					3.24	-वही-	वही-
			35 से अधिक और 40 तक जिसमें 40 भी शामिल है					3.57	वही	वही
			40 से अधिक और 45 तक जिसमें 45 भी शामिल है					3.91	-वही-	वही-
			45 से अधिक और 50 तक जिसमें 50 भी शामिल है					4.23	-वही-	वही-
			50 से अधिक और 55 तक जिसमें 55 भी शामिल है					4.56	-वही-	वही-
			55 से अधिक और 60 तक जिसमें 60 भी शामिल है					4.90	-वही-	वही-
			60 से अधिक और 65 तक जिसमें 65 भी शामिल है					5.23	-वही-	वही-
			65 से अधिक और 70 तक जिसमें 70 भी शामिल है					5.57	-वही-	वही-
			70 से अधिक और 75 तक जिसमें 75 भी शामिल है					5.91	वही	वही
			75 से अधिक और 80 तक जिसमें 80 भी शामिल है					6.24	-वही-	-वही-
			80 से अधिक और 85 तक जिसमें 85 भी शामिल है					6.58	वही	वही
			85 से अधिक और 90 तक जिसमें 90 भी शामिल है					6.92	वही-	वही-
			90 से अधिक और 95 तक जिसमें 95 भी शामिल है					7.25	वही-	-वही-
			95 से अधिक और 100 तक जिसमें 100 भी शामिल है					7.59	-वही-	-वही-

2 इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक, (यदि उसका खंडन, अधिकांत और सशोधन न किया जाये) जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगा और भारतीय करसी में सदेव होगा।

स्पटीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,-

(i) "अवतरण मूल्य" से ऐसा निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन निर्धारित किया गया हो और इसके अंतर्गत उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, धारा 3क, धारा 8ख, धारा 9 और धारा 9क के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्कों को छोड़कर, सभी सीमाशुल्क आते हैं;

(ii) प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू "विनिमय दर" वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और विनिमय दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/64/2006-टीआरयू (भाग)]

संजीव कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2012

No. 2/2012-Customs (ADD)

G.S.R. 12(E).—Whereas, the designated authority vide notification No. 15/24/2010-DGAD, dated the 6th December, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 6th December, 2010, had initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Silk fabrics 20-100 gms per metre, falling under heading 5007 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, People's Republic of China, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 121/2006-Customs, dated the 26th December, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.769 (E), dated the 26th December, 2006, which was extended *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 37/2011-Customs, dated the 21st April, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.336 (E), dated the 21st April, 2011 and had recommended for continuation of the anti-dumping duty *vide* notification No. 15/24/2010-DGAD, dated the 5th December, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 5th December, 2011.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, 1975 read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes anti-dumping duty on the goods, description of which is specified in column (3) of the Table below, falling

under headings of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), the specification of which is specified in column (4) of the said Table, originating in the countries specified in the corresponding entry in column (5), and exported from the countries specified in the corresponding entry in column (6) and produced by the producers specified in the corresponding entry in column (7) and exported by the exporters specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty which shall be equivalent to the difference between the amount specified in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10) of the said Table, and the landed value of such imported goods in like currency per like unit of measurement,-

TABLE

S. No.	Heading	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5007	Silk fabrics	Crepe in the following weight range of grammes per metre	China PR	China PR	Any	Any	As given below	Metre	US dollar
			Above 20 upto and Including 25					2.26	-Do-	-Do-
			Above 25 upto and Including 30					2.54	-Do-	-Do-
			Above 30 upto and Including 35					2.83	-Do-	-Do-
			Above 35 upto and Including 40					3.12	-Do-	-Do-
			Above 40 upto and Including 45					3.40	-Do-	-Do-
			Above 45 upto and Including 50					3.69	-Do-	-Do-
			Above 50 upto and Including 55					3.98	-Do-	-Do-
			Above 55 upto and Including 60					4.26	-Do-	-Do-
			Above 60 upto and Including 65					4.55	-Do-	-Do-
			Above 65 upto and Including 70					4.84	-Do-	-Do-
			Above 70 upto and Including 75					5.12	-Do-	-Do-
			Above 75 upto and Including 80					5.41	-Do-	-Do-
			Above 80 upto and Including 85					5.70	-Do-	-Do-
			Above 85 upto and Including 90					5.98	-Do-	-Do-
			Above 90 upto and Including 95					6.27	-Do-	-Do-
			Above 95 upto and Including 100					6.56	-Do-	-Do-

2	5007	Silk fabrics	Georgette/ Chiffon in the following weight range of grammes per metre	China PR	China PR	Any	Any	As given below	Metre	US dollar
			Above 20 upto and Including 25					1.82	-Do-	-Do-
			Above 25 upto and Including 30					2.08	-Do-	-Do-
			Above 30 upto and Including 35					2.34	-Do-	-Do-
			Above 35 upto and Including 40					2.60	-Do-	-Do-
			Above 40 upto and Including 45					2.86	-Do-	-Do-
			Above 45 upto and Including 50					3.12	-Do-	-Do-
			Above 50 upto and Including 55					3.38	-Do-	-Do-
			Above 55 upto and Including 60					3.63	-Do-	-Do-
			Above 60 upto and Including 65					3.89	-Do-	-Do-
			Above 65 upto and Including 70					4.15	-Do-	-Do-
			Above 70 upto and Including 75					4.41	-Do-	-Do-
			Above 75 upto and Including 80					4.67	-Do-	-Do-
			Above 80 upto and Including 85					4.93	-Do-	-Do-
			Above 85 upto and Including 90					5.19	-Do-	-Do-
			Above 90 upto and Including 95					5.45	-Do-	-Do-
			Above 95 upto and Including 100					5.71	-Do-	-Do-
3	5007	Silk fabrics	Habutar in the following weight range of grammes per metre	China PR	China PR	Any	Any	As given below	Metre	US dollar
			Above 20 upto and Including 25					2.16	-Do-	-Do-
			Above 25 upto and Including 30					2.43	-Do-	-Do-
			Above 30 upto and Including 35					2.69	-Do-	-Do-
			Above 35 upto and Including 40					2.96	-Do-	-Do-
			Above 40 upto and Including 45					3.23	-Do-	-Do-
			Above 45 upto and Including 50					3.50	-Do-	-Do-
			Above 50 upto and Including 55					3.76	-Do-	-Do-
			Above 55 upto and Including 60					4.03	-Do-	-Do-
			Above 60 upto and Including 65					4.30	-Do-	-Do-
			Above 65 upto and Including 70					4.57	-Do-	-Do-
			Above 70 upto and Including 75					4.83	-Do-	-Do-
			Above 75 upto and Including 80					5.10	-Do-	-Do-
			Above 80 upto and Including 85					5.37	-Do-	-Do-
			Above 85 upto and Including 90					5.63	-Do-	-Do-
			Above 90 upto and Including 95					5.90	-Do-	-Do-
			Above 95 upto and Including 100					6.17	-Do-	-Do-

4	5007	Silk fabrics	Others in the following weight range of grammes per metre	China PR	China PR	Any	Any	As given below	Metre	US dollar
			Above 20 upto and Including 25					2.56	-Do-	-Do-
			Above 25 upto and Including 30					2.90	-Do-	-Do-
			Above 30 upto and Including 35					3.24	-Do-	-Do-
			Above 35 upto and Including 40					3.57	-Do-	-Do-
			Above 40 upto and Including 45					3.91	-Do-	-Do-
			Above 45 upto and Including 50					4.23	-Do-	-Do-
			Above 50 upto and Including 55					4.56	-Do-	-Do-
			Above 55 upto and Including 60					4.90	-Do-	-Do-
			Above 60 upto and Including 65					5.23	-Do-	-Do-
			Above 65 upto and Including 70					5.57	-Do-	-Do-
			Above 70 upto and Including 75					5.91	-Do-	-Do-
			Above 75 upto and Including 80					6.24	-Do-	-Do-
			Above 80 upto and Including 85					6.58	-Do-	-Do-
			Above 85 upto and Including 90					6.92	-Do-	-Do-
			Above 90 upto and Including 95					7.25	-Do-	-Do-
			Above 95 upto and Including 100					7.59	-Do-	-Do-
5	5007	Silk fabrics	Crepe in the following weight range of grammes per metre	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	As given below	Metre	US dollar
			Above 20 upto and Including 25					2.26	-Do-	-Do-
			Above 25 upto and Including 30					2.54	-Do-	-Do-
			Above 30 upto and Including 35					2.83	-Do-	-Do-
			Above 35 upto and Including 40					3.12	-Do-	-Do-
			Above 40 upto and Including 45					3.40	-Do-	-Do-
			Above 45 upto and Including 50					3.69	-Do-	-Do-
			Above 50 upto and Including 55					3.98	-Do-	-Do-
			Above 55 upto and Including 60					4.26	-Do-	-Do-
			Above 60 upto and Including 65					4.55	-Do-	-Do-
			Above 65 upto and Including 70					4.84	-Do-	-Do-
			Above 70 upto and Including 75					5.12	-Do-	-Do-
			Above 75 upto and Including 80					5.41	-Do-	-Do-
			Above 80 upto and Including 85					5.70	-Do-	-Do-
			Above 85 upto and Including 90					5.98	-Do-	-Do-
			Above 90 upto and Including 95					6.27	-Do-	-Do-
			Above 95 upto and Including 100					6.56	-Do-	-Do-

6	5007	Silk fabrics	Georgette /Chiffon in the following weight range of grammes per metre	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	As given below	Metre	US dollar
			Above 20 upto and Including 25					2.08	-Do-	-Do-
			Above 25 upto and Including 30					2.34	-Do-	-Do-
			Above 30 upto and Including 35					2.60	-Do-	-Do-
			Above 35 upto and Including 40					2.86	-Do-	-Do-
			Above 40 upto and Including 45					3.12	-Do-	-Do-
			Above 45 upto and Including 50					3.38	-Do-	-Do-
			Above 50 upto and Including 55					3.63	-Do-	-Do-
			Above 55 upto and Including 60					3.89	-Do-	-Do-
			Above 60 upto and Including 65					4.15	-Do-	-Do-
			Above 65 upto and Including 70					4.41	-Do-	-Do-
			Above 70 upto and Including 75					4.67	-Do-	-Do-
			Above 75 upto and Including 80					4.93	-Do-	-Do-
			Above 80 upto and Including 85					5.19	-Do-	-Do-
			Above 85 upto and Including 90					5.45	-Do-	-Do-
			Above 90 upto and Including 95					5.71	-Do-	-Do-
			Above 95 upto and Including 100					5.97	-Do-	-Do-
7	5007	Silk fabrics	Habutai in the following weight range of grammes per metre	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	As given below	Metre	US dollar
			Above 20 upto and Including 25					2.16	-Do-	-Do-
			Above 25 upto and Including 30					2.43	-Do-	-Do-
			Above 30 upto and Including 35					2.69	-Do-	-Do-
			Above 35 upto and Including 40					2.96	-Do-	-Do-
			Above 40 upto and Including 45					3.23	-Do-	-Do-
			Above 45 upto and Including 50					3.50	-Do-	-Do-
			Above 50 upto and Including 55					3.76	-Do-	-Do-
			Above 55 upto and Including 60					4.03	-Do-	-Do-
			Above 60 upto and Including 65					4.30	-Do-	-Do-
			Above 65 upto and Including 70					4.57	-Do-	-Do-
			Above 70 upto and Including 75					4.83	-Do-	-Do-
			Above 75 upto and Including 80					5.10	-Do-	-Do-
			Above 80 upto and Including 85					5.37	-Do-	-Do-
			Above 85 upto and Including 90					5.63	-Do-	-Do-
			Above 90 upto and Including 95					5.90	-Do-	-Do-
			Above 95 upto and Including 100					6.17	-Do-	-Do-

8	5007	Silk fabrics	Others in the following weight range of grammes per metre	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	As given below	Metre	US dollar
			Above 20 upto and Including 25					2 56	-Do-	-Do-
			Above 25 upto and Including 30					2 90	-Do-	-Do-
			Above 30 upto and Including 35					3 24	-Do-	-Do-
			Above 35 upto and Including 40					3 57	-Do-	-Do-
			Above 40 upto and Including 45					3 91	-Do-	-Do-
			Above 45 upto and Including 50					4 23	-Do-	-Do-
			Above 50 upto and Including 55					4 56	-Do-	-Do-
			Above 55 upto and Including 60					4 90	-Do-	-Do-
			Above 60 upto and Including 65					5 23	-Do-	-Do-
			Above 65 upto and Including 70					5 57	-Do-	-Do-
			Above 70 upto and Including 75					5 91	-Do-	-Do-
			Above 75 upto and Including 80					6 24	-Do-	-Do-
			Above 80 upto and Including 85					6 58	-Do-	-Do-
			Above 85 upto and Including 90					6 92	-Do-	-Do-
			Above 90 upto and Including 95					7 25	-Do-	-Do-
			Above 95 upto and Including 100					7 59	-Do-	-Do-
9	5007	Silk fabrics	Crepe in the following weight range of grammes per metre	Any country other than China PR	China PR	Any	Any	As given below	Metre	US dollar
			Above 20 upto and Including 25					2 26	-Do-	-Do-
			Above 25 upto and Including 30					2 54	-Do-	-Do-
			Above 30 upto and Including 35					2 83	-Do-	-Do-
			Above 35 upto and Including 40					3 12	-Do-	-Do-
			Above 40 upto and Including 45					3 40	-Do-	-Do-
			Above 45 upto and Including 50					3 69	-Do-	-Do-
			Above 50 upto and Including 55					3 98	-Do-	-Do-
			Above 55 upto and Including 60					4 26	-Do-	-Do-
			Above 60 upto and Including 65					4 55	-Do-	-Do-
			Above 65 upto and Including 70					4 84	-Do-	-Do-
			Above 70 upto and Including 75					5 12	-Do-	-Do-
			Above 75 upto and Including 80					5 41	-Do-	-Do-
			Above 80 upto and Including 85					5 70	-Do-	-Do-
			Above 85 upto and Including 90					5 98	-Do-	-Do-
			Above 90 upto and Including 95					6 27	-Do-	-Do-
			Above 95 upto and Including 100					6 56	-Do-	-Do-

10	5007	Silk fabrics	Georgette /Chiffon in the following weight range of grammes per metre	Any country other than China PR	China PR	Any	Any	As given below	Metre	US dollar
			Above 20 upto and Including 25					2.08	-Do-	-Do-
			Above 25 upto and Including 30					2.34	-Do-	-Do-
			Above 30 upto and Including 35					2.60	-Do-	-Do-
			Above 35 upto and Including 40					2.86	-Do-	-Do-
			Above 40 upto and Including 45					3.12	-Do-	-Do-
			Above 45 upto and Including 50					3.38	-Do-	-Do-
			Above 50 upto and Including 55					3.63	-Do-	-Do-
			Above 55 upto and Including 60					3.89	-Do-	-Do-
			Above 60 upto and Including 65					4.15	-Do-	-Do-
			Above 65 upto and Including 70					4.41	-Do-	-Do-
			Above 70 upto and Including 75					4.67	-Do-	-Do-
			Above 75 upto and Including 80					4.93	-Do-	-Do-
			Above 80 upto and Including 85					5.19	-Do-	-Do-
			Above 85 upto and Including 90					5.45	-Do-	-Do-
			Above 90 upto and Including 95					5.71	-Do-	-Do-
			Above 95 upto and Including 100					5.97	-Do-	-Do-
11	5007	Silk fabrics	Habutai in the following weight range of grammes per metre	Any country other than China PR	China PR	Any	Any	As given below	Metre	US dollar
			Above 20 upto and Including 25					2.16	-Do-	-Do-
			Above 25 upto and Including 30					2.43	-Do-	-Do-
			Above 30 upto and Including 35					2.69	-Do-	-Do-
			Above 35 upto and Including 40					2.96	-Do-	-Do-
			Above 40 upto and Including 45					3.23	-Do-	-Do-
			Above 45 upto and Including 50					3.50	-Do-	-Do-
			Above 50 upto and Including 55					3.76	-Do-	-Do-
			Above 55 upto and Including 60					4.03	-Do-	-Do-
			Above 60 upto and Including 65					4.30	-Do-	-Do-
			Above 65 upto and Including 70					4.57	-Do-	-Do-
			Above 70 upto and Including 75					4.83	-Do-	-Do-
			Above 75 upto and Including 80					5.10	-Do-	-Do-
			Above 80 upto and Including 85					5.37	-Do-	-Do-
			Above 85 upto and Including 90					5.63	-Do-	-Do-
			Above 90 upto and Including 95					5.90	-Do-	-Do-
			Above 95 upto and Including 100					6.17	-Do-	-Do-

12	5007	Silk fabrics	Others in the following weight range of grammes per metre	Any country other than China PR	China PR	Any	Any	As given below	Metre	US dollar
			Above 20 upto and Including 25					2.56	-Do-	-Do-
			Above 25 upto and Including 30					2.90	-Do-	-Do-
			Above 30 upto and Including 35					3.24	-Do-	-Do-
			Above 35 upto and Including 40					3.57	-Do-	-Do-
			Above 40 upto and Including 45					3.91	-Do-	-Do-
			Above 45 upto and Including 50					4.23	-Do-	-Do-
			Above 50 upto and Including 55					4.56	-Do-	-Do-
			Above 55 upto and Including 60					4.90	-Do-	-Do-
			Above 60 upto and Including 65					5.23	-Do-	-Do-
			Above 65 upto and Including 70					5.57	-Do-	-Do-
			Above 70 upto and Including 75					5.91	-Do-	-Do-
			Above 75 upto and Including 80					6.24	-Do-	-Do-
			Above 80 upto and Including 85					6.58	-Do-	-Do-
			Above 85 upto and Including 90					6.92	-Do-	-Do-
			Above 90 upto and Including 95					7.25	-Do-	-Do-
			Above 95 upto and Including 100					7.59	-Do-	-Do-

3 The anti-dumping duty imposed shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the official Gazette and shall be payable in Indian currency

Explanation - For the purposes of this notification, -

- (i) "landed value" means the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Customs Tariff Act, and
- (ii) "rate of exchange" applicable for the purposes of calculation of anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers under sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act

[F No 354/64/2006-TRU (Pt)]

SANJEEV KUMAR SINGH, Under Secy

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2012

सं. 3/2012-सीमा-शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 13(अ).—अभिहित प्राधिकारी ने, चीनी टाईपेई, मलेशिया इंडोनेशिया, थाईलैंड और कोरिया जनवादी गणराज्य में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यातित नायलॉन फिलामेंट यार्न जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची अध्याय 54 के अंतर्गत आते हैं, के आयात के मामले में अधिसूचना सं० 15/14/2010-डीजीएडी, तारीख 27 अगस्त, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग I, खंड 1 में तारीख 27 अगस्त 2010, के द्वारा प्रकाशित की गई थी के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 85/2006-सीमाशुल्क, तारीख 29 अगस्त, 2006, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (1) में सा०का०नि० 512 (अ) तारीख 29 अगस्त, 2006 के द्वारा प्रकाशित के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के सबद्ध में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (5) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की थी और अधिसूचना सं० 15/14/2010-डीजीएडी, तारीख 19 नवंबर, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में तारीख 19 नवंबर, 2011 के द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) एवं (5) के साथ पठित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, अधोलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देश में उदगमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, ऐसे मालों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष के अंतर्गत आते हैं जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, तो उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेसी और उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त, उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में इंगित संदर्भ राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

सारणी

क्रम सं०	अध्याय	माल का विवरण	विशिष्टता	उद्गम देश	निर्यातक	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	करेसी
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	54	नायलॉन फिलामेंट यार्न	नायलॉन के कृत्रिम फिलामेंट यार्न या अन्य पॉलीमाइड नायलॉन के उच्च तन्व्यता यार्न और फिशनेट यार्न शामिल नहीं है	चीन ज.गण.	चीन ज.गण.	कोई	कोई	1.27	किलोग्राम	अमरीकी डालर
2	54	नायलॉन फिलामेंट यार्न	नायलॉन के कृत्रिम फिलामेंट यार्न या अन्य पॉलीमाइड नायलॉन के उच्च तन्व्यता यार्न और फिशनेट यार्न शामिल नहीं है	चीन ज.गण.	संबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	1.27	किलोग्राम	अमरीकी डालर
3	54	नायलॉन फिलामेंट यार्न	नायलॉन के कृत्रिम फिलामेंट यार्न या अन्य पॉलीमाइड नायलॉन के उच्च तन्व्यता यार्न और फिशनेट यार्न शामिल नहीं है	संबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	चीन ज.गण.	कोई	कोई	1.27	किलोग्राम	अमरीकी डालर
4	54	नायलॉन फिलामेंट यार्न	नायलॉन के कृत्रिम फिलामेंट यार्न या अन्य पॉलीमाइड नायलॉन के उच्च तन्व्यता यार्न और फिशनेट यार्न शामिल नहीं है	कोरिया गण.	कोरिया गण.	कोई	कोई	1.14	किलोग्राम	अमरीकी डालर
5	54	नायलॉन फिलामेंट यार्न	नायलॉन के कृत्रिम फिलामेंट यार्न या अन्य पॉलीमाइड नायलॉन के उच्च तन्व्यता यार्न और फिशनेट यार्न शामिल नहीं है	संबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	कोरिया गण.	कोई	कोई	1.14	किलोग्राम	अमरीकी डालर
6	54	नायलॉन	नायलॉन के कृत्रिम	कोरिया	संबद्ध देश	कोई	कोई	1.14	किलोग्राम	अमरीकी

		फिलामेंट यार्न	फिलामेंट यार्न या अन्य पॉलीमाइड नायलोन के उच्च तन्वता यार्न और फिशनेट यार्न शामिल नहीं है	गण	से इतर अन्य कोई देश					डालर
7	54	नायलॉन फिलामेंट यार्न	नायलोन के कृत्रिम फिलामेंट यार्न या अन्य पॉलीमाइड नायलोन के उच्च तन्वता यार्न और फिशनेट यार्न शामिल नहीं है	चीनी ताईपेई	चीनी ताईपेई	मै0 सनटेक्स फाइबर क लि.	मै0 सनटेक्स फाइबर क लि.	0.31	किलोग्राम	अमरीकी डालर
8	54	नायलॉन फिलामेंट यार्न	नायलोन के कृत्रिम फिलामेंट यार्न या अन्य पॉलीमाइड नायलोन के उच्च तन्वता यार्न और फिशनेट यार्न शामिल नहीं है	चीनी ताईपेई	चीनी ताईपेई	उत्पादक तथा निर्यातक के उपरोक्त क स 7 का अन्य कोई संयोजन		0.54	किलोग्राम	अमरीकी डालर
9	54	नायलॉन फिलामेंट यार्न	नायलोन के कृत्रिम फिलामेंट यार्न या अन्य पॉलीमाइड नायलोन के उच्च तन्वता यार्न और फिशनेट यार्न शामिल नहीं है	सबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	चीनी ताईपेई	कोई	कोई	0.54	किलोग्राम	अमरीकी डालर
10	54	नायलॉन फिलामेंट यार्न	नायलोन के कृत्रिम फिलामेंट यार्न या अन्य पॉलीमाइड नायलोन के उच्च तन्वता यार्न और फिशनेट यार्न शामिल नहीं है	चीनी ताईपेई	सबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	0.54	किलोग्राम	अमरीकी डालर
11	54	नायलॉन फिलामेंट यार्न	नायलोन के कृत्रिम फिलामेंट यार्न या अन्य पॉलीमाइड नायलोन के उच्च तन्वता यार्न और फिशनेट यार्न शामिल नहीं है	मलेशिया	मलेशिया	मै0 रेक्रोन (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी	मै0 रेक्रोन (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी	0.20	किलोग्राम	अमरीकी डालर
12	54	नायलॉन फिलामेंट यार्न	नायलोन के कृत्रिम फिलामेंट यार्न या अन्य पॉलीमाइड नायलोन के उच्च तन्वता यार्न और फिशनेट यार्न शामिल नहीं है	मलेशिया	मलेशिया	उत्पादक तथा निर्यातक के उपरोक्त क स 11 का अन्य कोई संयोजन		0.79	किलोग्राम	अमरीकी डालर

13	54	नायलॉन फिलामेंट यार्न	नायलॉन के कृत्रिम फिलामेंट यार्न या अन्य पॉलीमाइड नायलॉन के उच्च तन्व्यता यार्न और फिशनेट यार्न शामिल नहीं है	मलेशिया	सबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	0 79	किलोग्राम	अमरीकी डालर
14	54	नायलॉन फिलामेंट यार्न	नायलॉन के कृत्रिम फिलामेंट यार्न या अन्य पॉलीमाइड नायलॉन के उच्च तन्व्यता यार्न और फिशनेट यार्न शामिल नहीं है	सबद्ध देश	मलेशिया	कोई	कोई	0 79	किलोग्राम	अमरीकी डालर
15	54	नायलॉन फिलामेंट यार्न	नायलॉन के कृत्रिम फिलामेंट यार्न या अन्य पॉलीमाइड नायलॉन के उच्च तन्व्यता यार्न और फिशनेट यार्न शामिल नहीं है	थाईलैंड	थाईलैंड	थाई टफेटा क लि	उत्पादक तथा निर्यातक के उपरोक्त क स 15 का अन्य कोई संयोजन	1 06	किलोग्राम	अमरीकी डालर
16	54	नायलॉन फिलामेंट यार्न	नायलॉन के कृत्रिम फिलामेंट यार्न या अन्य पॉलीमाइड नायलॉन के उच्च तन्व्यता यार्न और फिशनेट यार्न शामिल नहीं है	थाईलैंड	थाईलैंड	उत्पादक तथा निर्यातक के उपरोक्त क स 15 का अन्य कोई संयोजन		1 51	किलोग्राम	अमरीकी डालर
17	54	नायलॉन फिलामेंट यार्न	नायलॉन के कृत्रिम फिलामेंट यार्न या अन्य पॉलीमाइड नायलॉन के उच्च तन्व्यता यार्न और फिशनेट यार्न शामिल नहीं है	सबद्ध देश	थाईलैंड	कोई	कोई	1 51	किलोग्राम	अमरीकी डालर
18	54	नायलॉन फिलामेंट यार्न	नायलॉन के कृत्रिम फिलामेंट यार्न या अन्य पॉलीमाइड नायलॉन के उच्च तन्व्यता यार्न और फिशनेट यार्न शामिल नहीं है	थाईलैंड	सबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	1 51	किलोग्राम	अमरीकी डालर
19	54	नायलॉन फिलामेंट यार्न	नायलॉन के कृत्रिम फिलामेंट यार्न या अन्य	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	मे0 इडाची	मे0 इडाची प्राइमा	0 91	किलोग्राम	अमरीकी डालर

		यार्न	पॉलीमाइड नायलोन के उच्च तन्व्यता यार्न और फिशनेट यार्न शामिल नहीं है			प्राइमा				
20	54	नायलॉन फिलामेंट यार्न	नायलोन के कृत्रिम फिलामेंट यार्न या अन्य पॉलीमाइड नायलोन के उच्च तन्व्यता यार्न और फिशनेट यार्न शामिल नहीं है	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	मै0 पी.टी. सुशीला इन्डाह सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज	मै0 पी.टी. सुशीला इन्डाह सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज	0.46	किलोग्राम	अमरीकी डालर
21	54	नायलॉन फिलामेंट यार्न	नायलोन के कृत्रिम फिलामेंट यार्न या अन्य पॉलीमाइड नायलोन के उच्च तन्व्यता यार्न और फिशनेट यार्न शामिल नहीं है	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	उत्पादक तथा निर्यातक के उपरोक्त कं.सं. 19 और 20 का अन्य कोई संयोजन		1.11	किलोग्राम	अमरीकी डालर
22	54	नायलॉन फिलामेंट यार्न	नायलोन के कृत्रिम फिलामेंट यार्न या अन्य पॉलीमाइड नायलोन के उच्च तन्व्यता यार्न और फिशनेट यार्न शामिल नहीं है	संबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	इंडोनेशिया	कोई	कोई	1.11	किलोग्राम	अमरीकी डालर
23	54	नायलॉन फिलामेंट यार्न	नायलोन के कृत्रिम फिलामेंट यार्न या अन्य पॉलीमाइड नायलोन के उच्च तन्व्यता यार्न और फिशनेट यार्न शामिल नहीं है	इंडोनेशिया	संबद्ध देश से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	1.11	किलोग्राम	अमरीकी डालर

परंतु आयातों पर पाटनरोधी शुल्क देय नहीं होगा:

क.

i. नायलोन फ्लेम रिटार्डेंट यार्न

ii. नायलोन एअर टैक्सचराइज्ड यार्न,

iii. नायलोन 66 यार्न और नायलोन 11 यार्न,

iv. 170/24 और 280/14 डेनियर यार्न जो हुक तथा लूप टेप फरटनर्स के लिए प्रयुक्त होते हैं,

v. यू.वी. ट्रिट्रेड यार्न,

यदि उनकी अवतरण मूल्य 4.24 अमरीकी डॉलर से अधिक हो, और

ख. नायलोन मोनोफिलामेंट यार्न यदि उनकी अवतरण मूल्य 5.17 अमरीकी डॉलर से अधिक हो।

ऊपर विनिर्दिष्ट डेनियर मान के मामले में लोचशीलता की सीमा, लागू सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क अधिसूचना के अनुसार होगी।

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपादन शुल्क सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक, (यदि उसका खंडन, अधिकांश और संशोधन न किया जाये) जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगा और भारतीय करेंसी में संदेय होगा।

स्पष्टीकरण इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,-

(i) “अवतरण मूल्य” से ऐसा निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन निर्धारित किया गया हो और इसके अंतर्गत उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, धारा 3क, धारा 8ख, धारा 9 और धारा 9क के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्कों को छोड़कर सभी सीमाशुल्क आते हैं;

(ii) प्रतिपादन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू “विनिमय दर” वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और विनिमय दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. म 354/19/2006-टीआरयू]

संजीव कुमार सिंह, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2012

No. 3/2012-Customs (ADD)

G.S.R. 13(E).—Whereas, the designated authority vide notification No 15/14/2010-DGAD, dated the 27th August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I dated the 27th August, 2010, had initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Nylon Filament Yarn, falling under Chapter 54 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, People's Republic of China, Chinese Taipei, Malaysia, Thailand and Korea RP imposed vide notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 85/2006-Customs, dated the 29th August, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G S R 512(E), dated the 29th August, 2005, and had recommended continuation of the anti-dumping duty vide notification No. 15/14/2010-DGAD, dated the 19th November, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I dated the 19th November, 2011.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, 1975 read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes anti-dumping

duty on the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, specification of which is specified in column (4) of the Table below, falling under chapter of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (3), originating in the country specified in the corresponding entry in column (5), and exported from the country specified in the corresponding entry in column (6) and produced by the producer specified in the corresponding entry in column (7) and exported by the exporter specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount indicated in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10) of the said Table.

TABLE

S. No	Chapter	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8	9	(10)	(11)
1	54	Nylon Filament yarn	Synthetic filament yarn of nylon or other polyamides, excluding all high tenacity yarn of nylon and fishnet yarn of nylon	China PR	China PR	Any	Any	1.27	Kg	US dollar
2	54	Nylon Filament yarn	Synthetic filament yarn of nylon or other polyamides, excluding all high tenacity yarn of nylon and fishnet yarn of nylon	China PR	Any country other than subject countries	Any	Any	1.27	kg	US dollar

3	54	Nylon Filament yarn	Synthetic filament yarn of nylon or other polyamides, excluding all high tenacity yarn of nylon and fishnet yarn of nylon	Any Country Other than subject countries	China PR	Any	Any	1 27	Kg	US dollar
4	54	Nylon Filament yarn	Synthetic filament yarn of nylon or other polyamides, excluding all high tenacity yarn of nylon and fishnet yarn of nylon	Korea RP	Korea RP	Any	Any	1 14	Kg	US dollar
5	54	Nylon Filament yarn	Synthetic filament yarn of nylon or other polyamides, excluding all high tenacity yarn of nylon and fishnet yarn of nylon	Any country other than subject countries	Korea	Any	Any	1 14	Kg	US dollar
6	54	Nylon Filament yarn	Synthetic filament yarn of nylon or other polyamides, excluding all high tenacity yarn of nylon and fishnet yarn of nylon	Korea RP	Any country other than subject countries	Any	Any	1 14	Kg	US dollar
7	54	Nylon Filament yarn	Synthetic filament yarn of nylon or other polyamides, excluding all high tenacity yarn of nylon and fishnet yarn of nylon	Chinese Taipei	Chinese Taipei	M/s Suntex Fiber Co Ltd.	M/s Suntex Fiber Co Ltd.	0 31	Kg	US dollar

8	54	Nylon Filament yarn	Synthetic filament yarn of nylon or other polyamides, excluding all high tenacity yarn of nylon and fishnet yarn of nylon	Chinese Taipei	Chinese Taipei	Any other combination of producer and exporter at 7 above		0.54	Kg	US dollar
9	54	Nylon Filament yarn	Synthetic filament yarn of nylon or other polyamides, excluding all high tenacity yarn of nylon and fishnet yarn of nylon	Any country other than subject countries	Chinese	Any	Any	0.54	Kg	US dollar
10	54	Nylon Filament yarn	Synthetic filament yarn of nylon or other polyamides, excluding all high tenacity yarn of nylon and fishnet yarn of nylon	Chinese Taipei	Any country other than subject countries	Any	Any	0.54	Kg	US dollar
11	54	Nylon Filament yarn	Synthetic filament yarn of nylon or other polyamides, excluding all high tenacity yarn of nylon and fishnet yarn of nylon	Malaysia	Malaysia	M/s Recron (Malaysia) Sdn. Bhd	M/s Recron (Malaysia) Sdn. Bhd	0.20	Kg	US dollar
12	54	Nylon Filament yarn	Synthetic filament yarn of nylon or other polyamides, excluding all high tenacity yarn of nylon and fishnet yarn of nylon	Malaysia	Malaysia	Any other combination of producer and exporter at 11 above		0.79	kg	US dollar

13	54	Nylon Filament yarn	Synthetic filament yarn of nylon or other polyamides, excluding all high tenacity yarn of nylon and fishnet yarn of nylon	Malaysia	Any country other than subject countries	Any	Any	0.79	Kg	US dollar
14	54	Nylon Filament yarn	Synthetic filament yarn of nylon or other polyamides, excluding all high tenacity yarn of nylon and fishnet yarn of nylon	Any country other than subject countries	Malaysia	Any	Any	0.79	Kg	US dollar
15	54	Nylon Filament yarn	Synthetic filament yarn of nylon or other polyamides, excluding all high tenacity yarn of nylon and fishnet yarn of nylon	Thailand	Thailand	Thai Taffeta Co. Ltd	Thai Taffeta Co. Ltd	1.06	Kg	US dollar
16	54	Nylon Filament yarn	Synthetic filament yarn of nylon or other polyamides, excluding all high tenacity yarn of nylon and fishnet yarn of nylon	Thailand	Thailand	Any other combination of producer and exporter at 15 above		1.51	Kg	US dollar

17	54	Nylon Filament yarn	Synthetic filament yarn of nylon or other polyamides, excluding all high tenacity yarn of nylon and fishnet yarn of nylon	Any country other than subject countries	Thailand	Any	Any	1.51	Kg	US dollar
18	54	Nylon Filament yarn	Synthetic filament yarn of nylon or other polyamides, excluding all high tenacity yarn of nylon and fishnet yarn of nylon	Thailand	Any country other than subject countries	Any	Any	1.51	Kg	US dollar
19	54	Nylon Filament yarn	Synthetic filament yarn of nylon or other polyamides, excluding all high tenacity yarn of nylon and fishnet yarn of nylon	Indonesia	Indonesia	M/s Indachi prima	M/s Indachi prima	0.91	Kg	US dollar
20	54	Nylon Filament yarn	Synthetic filament yarn of nylon or other polyamides, excluding all high tenacity yarn of nylon and fishnet yarn of nylon	Indonesia	Indonesia	M/s PT Susilia Indah Synthetic Fiber Industries	M/s PT Susilia Indah Synthetic Fiber Industries	0.46	Kg	US dollar
21	54	Nylon Filament yarn	Synthetic filament yarn of nylon or other polyamides, excluding all high tenacity yarn of nylon and fishnet yarn of nylon	Indonesia	Indonesia	Any other combination of producer and exporter at 19 and 20 above		1.11	Kg	US dollar

22	54	Nylon Filament yarn	Synthetic filament yarn of nylon or other polyamides, excluding all high tenacity yarn of nylon and fishnet yarn of nylon	Any country other than subject countries	Indonesia	Any	Any	1.11	Kg	US dollar
23	54	Nylon Filament yarn	Synthetic filament yarn of nylon or other polyamides, excluding all high tenacity yarn of nylon and fishnet yarn of nylon	Indonesia	Any country other than subject countries	Any	Any	1.11	Kg	US dollar

Provided that no anti dumping duty shall be payable on imports of

A.

- i. Nylon flame retardant yarn,
 - ii. Nylon air texturised yarn,
 - iii. Nylon 66 and Nylon 11 yarn,
 - iv. 170/24 and Nylon 280/14 denier yarn used for hook and loop tape fasteners,
 - v. U.V treated yarn,
- if their landed price is above US\$ 4.24, and

B. Nylon monofilament yarn, if their landed price is above US\$ 5.17.

Provided further that the tolerance limit in case of above specified denierage would be as per applicable customs and excise notification

2. The anti-dumping duty imposed shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the official Gazette and shall be payable in Indian currency

Explanation. - For the purposes of this notification, -

- (i) "landed value" means the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Customs Tariff Act; and

(ii) "rate of exchange" applicable for the purposes of calculation of anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers under sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/19/2006-TRU]

SANJEEV KUMAR SINGH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2012

सं. 4/2012-सीमा-शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 14(अ).—अभिहित प्राधिकारी, इस्राइल और ताईवान (जिसे इसके बाद संबद्ध देश—कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) (जिसे इसके बाद उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम भी कहा गया है) की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 2809 20 10 के अंतर्गत आने वाले फास्फोरिक एसिड के सभी ग्रेडों और सभी सांद्रणों (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर) (जिसे इसके बाद संबद्ध माल कहा गया है) के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 25 अक्टूबर, 2011 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचना सं० 14/44/2010-डीजीएडी, तारीख 25 अक्टूबर, 2011 में इस निर्णय पर पहुंचे थे कि:-

(क) संबद्ध देश से भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात उनके सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर किया गया था;

(ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध माल के कारण हुई थी;

(ग) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देश के मूल की उदगमित या वहां से निर्यातित संबद्ध माल के पाटित आयातों द्वारा हुई थी;

और संबद्ध देश में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए संबद्ध माल के आयातों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 13 और 20 के अधीन अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त जांच परिणाम के आधार पर अधोलिखित सारणी के स्तंभ (4) में वर्णित देशों में उदगमित, उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, संबद्ध मालों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (5) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित राशि, के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (10) की

तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेंसी और उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त है।

सारणी

क्रम नं०	टैरिफ मद	माल का विवरण	उदगम देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	करेंसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2809 20 10	फास्फोरिक एसिड के सभी ग्रेडों और सभी सांद्रणों (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर)	इस्राइल	इस्राइल	मै० रोटए एमफट नेगेव लि०	मै० इस्राइल केमिकल लि०	236.83	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
2	2809 20 10	फास्फोरिक एसिड के सभी ग्रेडों और सभी सांद्रणों (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर)	इस्राइल	इस्राइल	उत्पादक तथा निर्यातक के उपरोक्त कं.सं. 11 का अन्य कोई संयोजन		260.26	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
3	2809 20 10	फास्फोरिक एसिड के सभी ग्रेडों और सभी सांद्रणों (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर)	जिन देशों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है के सिवाय कोई देश	इस्राइल	कोई	कोई	260.26	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
4	2809 20 10	फास्फोरिक एसिड के सभी ग्रेडों और सभी सांद्रणों (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर)	इस्राइल	इस्राइल के सिवाय अन्य कोई	कोई	कोई	260.26	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
5	2809 20 10	फास्फोरिक एसिड के सभी ग्रेडों और सभी सांद्रणों (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर)	ताईवान	ताईवान	कोई	कोई	116.25	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
6	2809 20 10	फास्फोरिक एसिड के सभी ग्रेडों और सभी सांद्रणों (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर)	जिन देशों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है के सिवाय कोई देश	ताईवान	कोई	कोई	116.25	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

7	2809 20 10	फॉस्फोरिक एसिड के सभी ग्रेडों और सभी सांद्रणों (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर)	ताइवान	ताइवान के सिवाय अन्य कोई	कोई	कोई	116.25	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
---	---------------	---	--------	--------------------------------	-----	-----	--------	---------------	----------------

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपादन शुल्क सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 6 माह से अधिक तक प्रभावी नहीं होगा, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रतिपादन शुल्क भारतीय करेंसी में संदेय होगा

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए प्रतिपादन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनिमय दर वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और विनिमय दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 48 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/309/2011-टीआरयू]

संजीव कुमार सिंह, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2012

No. 4/2012-Customs (ADD)

G.S.R. 14(E).—Whereas, in the matter of import of Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer Grade) (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 28092010 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said customs Tariff Act), originating in, or exported from, Israel and Taiwan (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority, vide its preliminary findings No. 14/44/2010-DGAD, dated the 25th October, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 25th October, 2011, had come to the conclusion that-

- the subject goods had been exported to India from the subject countries below its normal value;
- the domestic industry had suffered material injury in respect of the subject goods;
- the material injury to the domestic industry had been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries,

and had recommended imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from, the subject countries.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under sub-heading of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table.

TABLE

S. No.	Tariff item	Description of goods	Country of origin	Country of exports	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	28092010	Phosphoric Acid of all grades and concentrations (excluding Agriculture/Fertiliser Grade)	Israel	Israel	M/s Rotem Amfert Negev. Ltd	M/S Israel Chemicals Limited	236.83	MT	US dollar
2	28092010	Phosphoric Acid of all grades and concentrations (excluding Agriculture/Fertiliser Grade)	Israel	Israel	Any combination of producer & exporter except at Sr. No.1		260.26	MT	US dollar
3	28092010	Phosphoric Acid of all grades and concentrations (excluding Agriculture/Fertiliser Grade)	Any country other than countries attracting Anti-dumping duty	Israel	Any	Any	260.26	MT	US dollar

4	28092010	Phosphoric Acid of all grades and concentrations (excluding Agriculture/Fertiliser Grade)	Israel	Any other than Israel	Any	Any	260.26	MT	US dollar
5	28092010	Phosphoric Acid of all grades and concentrations (excluding Agriculture/Fertiliser Grade)	Taiwan	Taiwan	Any	Any	116.25	MT	US dollar
6	28092010	Phosphoric Acid of all grades and concentrations (excluding Agriculture/Fertiliser Grade)	Any country other than countries attracting Anti-dumping duty	Taiwan	Any	Any	116.25	MT	US dollar
7	28092010	Phosphoric Acid of all grades and concentrations (excluding Agriculture/Fertiliser Grade)	Taiwan	Any other than Taiwan	Any	Any	116.25	MT	US dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period not exceeding six months from the publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.— For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962, (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/309/2011-TRU]

SANJEEV KUMAR SINGH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2012

सं. 5/2012-सीमा-शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 15(अ).—अभिहित प्राधिकारी ने, चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यातित सेलफोन पारदर्शी फिल्म (सीटीएफ) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसका पश्चात उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम भी कहा गया है) की पहली अनुसूची के अध्याय 39 के अंतर्गत आते हैं, के आयात के मामले में अधिसूचना सं० 15/15/2010-डीजीएडी, तारीख 1 दिसम्बर, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में तारीख 1 दिसम्बर, 2010, के द्वारा प्रकाशित की गई थी के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 94/2006-सीमाशुल्क, तारीख 7 सितम्बर, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा०का०नि० 540 (अ) तारीख 7 सितम्बर, 2006 के द्वारा प्रकाशित के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के संबद्ध में, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (5) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरम्भ की थी और अधिसूचना सं० 15/15/2010-डीजीएडी, तारीख 30 नवम्बर, 2011, जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग I, खंड 1 में तारीख 30 नवम्बर, 2011, के द्वारा प्रकाशित की गई थी द्वारा अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) तथा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम 1995 के नियम 18 और 23 के अधीन अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त जाच परिणाम के आधार पर अधोलिखित सारणी के स्तंभ (4) में वर्णित देशों में उदगमित, उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादक द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए सबद्ध मालों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (5) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेसी और उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त है।

चीन गणराज्य के सिवाय अन्य देश

सारणी

क्रम सं०	उपशीर्ष	माल का विवरण	उदगम देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	करेसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	392071	सेलफोन पारदर्शी फिल्म	चीन गणराज्य	चीन गणराज्य	कोई	कोई	1.95	किलोग्राम	अमरीकी डालर
2	392071	सेलफोन पारदर्शी फिल्म	चीन गणराज्य	चीन गणराज्य के सिवाय अन्य देश	कोई	कोई	1.95	किलोग्राम	अमरीकी डालर
3	392071	सेलफोन पारदर्शी फिल्म	चीन गणराज्य के सिवाय अन्य	चीन गणराज्य	कोई	कोई	1.95	किलोग्राम	अमरीकी डालर

70947112-5

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपादन शुल्क सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक, (यदि उसका खडन, अधिकात और संशोधन न किया जाये) जिसमे यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगा और भारतीय करेंसी मे सदेय होगा।

स्पष्टीकरण - प्रतिपादन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनियम दर वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14, के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और विनियम दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/27/2006-टीआरयू]

संजीव कुमार सिंह, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2012

No. 5/2012-Customs (ADD)

G.S.R. 15(E).—Whereas, the designated authority vide notification No. 15/15/2010-DGAD, dated the 1st December, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 1st December, 2010, had initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Cellophane Transparent Film (CTF), falling under Chapter 39 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, originating in, or exported from, People's Republic of China, imposed vide notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 94/2006-Customs, dated the 7th September, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 540(E), dated the 7th September, 2006, and had recommended continuation of the anti-dumping duty vide notification No. 15/15/2010-DGAD, dated the 30th November, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 30th November, 2011.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, 1975 read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes anti-dumping duty on the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under sub-

heading of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country specified in the corresponding entry in column (4), and exported from the country specified in the corresponding entry in column (5) and produced by the producer specified in the corresponding entry in column (6) and exported by the exporter specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount indicated in the corresponding entry in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table

TABLE

S. No	Sub-heading	Description of goods	Country of origin	Country of exports	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	392071	Cellophane Transparent Film	China PR	China PR	Any	Any	1 95	Kg	US dollar
2	392071	Cellophane Transparent Film	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	1 95	Kg	US dollar
3	392071	Cellophane Transparent Film	Any Country other than China PR	China PR	Any	Any	1 95	Kg	US dollar

3. The anti-dumping duty imposed shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency

Explanation - For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act

[F No 354/27/2006-TRU]

SANJEEV KUMAR SINGH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2012

सं. 6/2012-सीमा-शुल्क (एडीडी)

सं. 16(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 की 51) की धारा 9क की उपधारा (1) तथा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 136/2009-सीमाशुल्क, तारीख 9 दिसम्बर, 2009 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 873 (अ), तारीख 9 दिसम्बर, 2009 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, को उन बातों के सिवाय जो ऐसे विखंडन से पूर्व की गई हैं या जिन्हें करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[फ. सं 354/54/2006-टीआरयू (पार्ट II)]

सजीव कुमार सिंह, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2012

No. 6/2012-Customs (ADD)

G.S.R. 16(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No 136/2009-Customs, dated the 9th December, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 873 (E), dated the 9th December, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No 354/54/2006-TRU (Pt II)]

SANJEEV KUMAR SINGH, Under Secy

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2012

सं. 7/2012-सीमा-शुल्क (एडीडी)

प्रका.नि. 17(अ).—अभिहित प्राधिकारी ने, चाइना पी आर, में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यातित सेकरिन जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 29, 30, 33 और 38 के अन्तर्गत आते हैं, के आयात के मामले में अधिसूचना सं 15/20/2010-डीजीएडी, तारीख 9 दिसम्बर 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में तारीख 9 दिसम्बर, 2010, के द्वारा प्रकाशित की गई थी के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 41/2007-सीमाशुल्क तारीख 19 मार्च 2007, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (1) में सं 0का0नि0 205 (अ) तारीख 19 मार्च, 2007 का अतिक्रमण अधिसूचना सं 136/2009-सीमाशुल्क तारीख 9 दिसम्बर, 2009, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं 0का0नि0 873 (अ) तारीख 9 दिसम्बर 2009 के द्वारा प्रकाशित के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के संबंध में, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (5) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरम्भ की थी और अधिसूचना सं 15/20/2010-डीजीएडी, तारीख 07 दिसम्बर, 2011, जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग I, खंड 1 में तारीख 07 दिसम्बर 2011 के द्वारा प्रकाशित की गई थी द्वारा अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पाटित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) एवं (5) के साथ पाटित द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए, और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, अधोलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देश में उदगमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, ऐसे मालों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मद के अन्तर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देश से उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए तो उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करसी और उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में इंगित रादर्भ राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

सारणी

क्रम सं०	टैरिफ मद	माल का विवरण	विशिष्टता	उदगम देश	निर्यातक	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	करसी
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	29251100, 29151100.	सेकरिन	सभी श्रेणी	चीन गणराज्य	चीन गणराज्य	कोई	कोई	2.69	किलोग्राम	अमरीकी डालर

	29251100, 29251100, 29251900, 29252990, 29142120, 29420090, 30049099, 33069000, 38249090									
2	29251100, 29151100, 29251100, 29251100, 29251900, 29252990, 29142120, 29420090, 30049099, 33069000, 38249090	सेकरिन	सभी श्रेणी	चीन गणराज्य	कोई	कोई	कोई	2 69	किलोग्राम	अमरीकी डालर
3	29251100, 29151100, 29251100, 29251100, 29251900, 29252990, 29142120, 29420090, 30049099, 33069000, 38249090	सेकरिन	सभी श्रेणी	चीन गणराज्य के सिवाय अन्य कोई देश	चीन गणराज्य	कोई	कोई	2 69	किलोग्राम	अमरीकी डालर

2 इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपादन शुल्क सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पाच वर्ष तक, (यदि उसका खंडन, अधिक्रात और सशोधन न किया जाये) जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगा और भारतीय करेंसी में सदेय होगा।

स्पष्टीकरण - प्रतिपादन शुल्क की सगणना के प्रयोजन के लिए लागू विनिमय दर वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और विनिमय दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/54/2006-टीआरयू (पार्ट II)]

संजीव कुमार सिंह, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2012

No. 7/2012-Customs (ADD)

G.S.R. 17(E).—Whereas, the designated authority vide notification No. 15/20/2010-DGAD, dated the 9th December, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 9th December, 2010, had initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Saccharin, falling under Chapters 29, 30, 33 and 38 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, originating in, or exported from, People's Republic of China, imposed vide notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 41/2007-Customs, dated the 19th March, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 205(E), dated the 19th March, 2007, which was superseded by the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 136/2009-Customs, dated the 9th December, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 873 (E), dated the 9th December, 2009, and had recommended for continuation of the anti-dumping duty vide notification No. 15/20/2010-DGAD, dated the 7th December, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 7th December, 2011.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, 1975 read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes anti-dumping duty on the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, the specification of which is specified in column (4) of the Table below, falling under sub-heading of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country specified in the corresponding entry in column (5), and exported from the country specified in the

corresponding entry in column (6) and produced by the producer specified in the corresponding entry in column (7) and exported by the exporter specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount indicated in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Tariff Item	Description	Specification	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	29251100, 29151100, 29251100, 29251900, 29252990, 29142120, 29420090, 30049099, 33069000, 38249090	Saccharin	All Grades	China PR	China PR	Any	Any	2.69	Kg	US dollar
2	29251100, 29151100, 29251100, 29251900, 29252990, 29142120, 29420090, 30049099, 33069000, 38249090	Saccharin	All Grades	China PR	Any	Any	Any	2.69	Kg	US dollar
3	29251100, 29151100, 29251100, 29251900, 29252990, 29142120, 29420090, 30049099, 33069000, 38249090	Saccharin	All Grades	Any country other than China PR	China PR	Any	Any	2.69	Kg	US dollar

3 The anti-dumping duty imposed shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation - For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F No 354/54/2006-TRU (Pt II)]

SANJEEV KUMAR SINGH, Under Secy